

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन के निवासियों को सिटी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के बारे में अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है

ब्रैम्पटन, ओन्टारियो (7 जुलाई, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन विकसित हो रही है। निवासी यह निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं कि आने वाले वर्षों में शहर कैसा दिखाई दे। जुलाई में, निवासियों के पास पांच नए और रोमांचक प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने सुझाव प्रदान करने का अवसर है।

शामिल होने के सभी मौजूदा अवसर www.brampton.ca/engage पर सूचीबद्ध हैं।

लाइट रेल ट्रांज़िट का विस्तार

निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे 31 जुलाई तक, वर्चुअल ओपन हाउस पर जाएं और लाइट रेल ट्रांज़िट (एल.आर.टी.) (Light Rail Transit) (LRT) के विस्तार के बारे में अपने सुझाव दें। स्टील्स एवेन्यू (Steels Avenue) पर ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल (Brampton Gateway Terminal) से ब्रैम्पटन गो स्टेशन (Brampton GO Station) तक, मेन स्ट्रीट (Main Street) पर, नियोजित हुरोन्टारियो एल.आर.टी. (Hurontario LRT) का विस्तार करना, ट्रांज़िट की मुख्य प्राथमिकता है। साथ ही, यह सिटी के लिए शहर द्वारा बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट है। प्राथमिक रूट की सिफारिश, कुदरती, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ-साथ, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कारकों से जुड़े कुछ मापदंडों के आधार पर की जाएगी।

विलियम्स पार्कवे रिव्यू

अपने निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सिटी सड़कें बना रही है। विलियम्स पार्कवे रिव्यू (Williams Parkway Review) के बारे में एक सर्वेक्षण, 1 अगस्त तक ऑनलाइन उपलब्ध है। निवासी उस बारे में टिप्पणी कर सकते हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है: चौड़ा पैदल चलने का रास्ता, अधिक सुरक्षित बाइक वाला रास्ता, समर्पित ट्रांज़िट लेन या कारों के लिए सड़क पर अधिक जगह।

वोडन स्ट्रीट ईस्ट/वेस्ट साइकलिंग कॉरिडोर

सिटी अलग बाइक लेनों के साथ, सिलसिलेवार और जुड़ा हुआ पूर्व-पश्चिम साइकलिंग कॉरिडोर बना रही है। इसमें ब्रैम्पटन 2040 विजन (Brampton 2040 Vision) में मुख्य प्राथमिकता के तौर पर दिया गया है। यह साइकलिंग कॉरिडोर, साइकल सवारों को साइकल चलाने का अधिक आरामदेह और सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा और मौजूदा उत्तरी-दक्षिणी पगडंडियों तक पहुंच प्रदान करेगा। निवासी अधिक जानकारी प्राप्त करके, वोडन स्ट्रीट (Vodden Street), होडन बुलेवार्ड (Howden Boulevard) और हैनओवर रोड (Hanover Road) के साथ-साथ, लगभग 7 किलोमीटर की साइकिल चलाने की सहूलियतों के बारे में सुझाव साझे कर सकते हैं।

तीसरी ट्रांज़िट फैसिलिटी

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), कॅनेडा के सबसे अधिक विकसित होने वाले ट्रांज़िट नेटवर्क्स में से एक है। तीव्र वृद्धि को मांग

को पूरा करने के लिए, सिटी, ट्रांज़िट देखभाल वाली और संचालनों वाली एक तीसरी फैसिलिटी की योजना बना रही है। जनता के लिए प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने और सुझाव देने के लिए, वर्चुअल ओपन हाउस, 15 जुलाई तक ऑनलाइन उपलब्ध है।

टूरिज़्म स्ट्रैटजी

निवासियों, आगंतुकों और स्टेकहोल्डर्स को सिटी की [पहली टूरिज़्म स्ट्रैटजी \(first ever Tourism Strategy\)](#) के बारे में अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह कार्यनीति, सिटी की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी (Economic Recovery Strategy) के अनुरूप की जाने वाली, आर्थिक बहाली और छोटी सामुदायिक/लोकल पहलकदमियों पर ध्यान केंद्रित करके, ब्रैम्पटन की छोटी और लंबी-अवधि की टूरिज़्म वृद्धि पर ध्यान देगी। टूरिज़्म स्ट्रैटजी, घरेलू टूरिज़्म को बढ़ाने के अवसरों की पहचान करेगी। शामिल होने के अवसरों में एक निवासी सर्वेक्षण शामिल किया गया है, जो 20 जुलाई तक खुला है। मंगलवार, 14 जुलाई को शाम 7 बजे, निवासियों के इंटरव्यू और आभासी (वर्चुअल) सार्वजनिक सलाह ली जाएगी।

हवाले

“हम जो भी करते हैं, निवासी उस सबका केंद्र होते हैं। ग्रीन, स्वस्थ, सुरक्षित और मोजैक सिटी बनाना जारी रखने के लिए, हमारे लिए उनके सुझाव जरूरी हैं। मैं सभी ब्रैम्पटन निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे सार्वजनिक भागीदारी वाले इन अवसरों में हिस्सा लें और सिटी के कई जारी, परिवर्तनशील प्रोजेक्टों के बारे में अधिक जानें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के लिए हमारे समुदाय का स्वास्थ्य और तंदरुस्ती लगातार सबसे महत्वपूर्ण बनी हुई है। हम कोविड-19 महामारी के दौरान, लगातार हमारे निवासियों को सेवा देने के नए तरीके ढूँढ रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं, उसके लिए समुदाय के सुझाव जरूरी हैं। इन वर्चुअल ओपन हाउसिंग और सर्वेक्षणों से, निवासी अपने घरों से ही आराम से शामिल हो पाएंगे।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.c